



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 फाल्गुन 1934 (श०)
(सं० पटना 224) पटना, सोमवार, 11 मार्च 2013

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

अधिसूचना
6 मार्च 2013

सं० नि०प्रा०/नि० 1-22/2012-276—चूँकि बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा-14 (क) में किये गये संशोधन एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 1273 दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निर्बंधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति, जो अधिक्रमित हैं या जिनकी कालावधि समाप्त होने वाली है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

और, चूँकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा बिहार राज्य हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लि०, राजेन्द्रनगर, पटना से संबद्ध तीन क्षेत्रीय संघ क्रमशः (i) क्षेत्रीय हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लि०, बिहारशरीफ, नालन्दा (ii) क्षेत्रीय हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लि०, सिवान एवं (iii) क्षेत्रीय हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लि०, मधुबनी के प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है।

अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 एवं बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 (यथा संशोधित, 2008) की धारा-14 'क' तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा परिशिष्ट-1 में अंकित कार्यक्रम के अनुसार उक्त क्षेत्रीय हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लिमिटेड की उपविधियों में यथा अंकित प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष/ सदस्यों के निर्वाचन हेतु सविरोध निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु दिनांक 15.04.2013 (सोमवार) की तिथि नियत करता है तथा संबंधित संघ के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन संघ के प्रबंधकारिणी समिति के पदधारकों को निर्वाचित करें। ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार द्वारा अपने पत्र संख्या-193 दिनांक 08.02.2013 से मतदाता सूची तैयार करने के लिए कट-ऑफ तिथि दिनांक 31.01.2013 निर्धारित की गयी है।

संघ के निर्वाचन हेतु आरक्षण के बिन्दु पर निम्न निदेशों का अनुपालन किया जायेगा :-

- (i) उप विधियों के उपबंध के अनुसार आरक्षण का अनुपालन किया जायेगा।

- (ii) संविधान (97वाँ संशोधन) अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के अनुसार जिन समितियों में अनु० जाति/ जन जाति एवं/ या महिला सदस्य हैं, उन समितियों में अनु० जाति/ जन जाति के लिए एक पद तथा महिलाओं के लिए दो पद आरक्षित किये जायेंगे, बशर्ते कि उप विधियों में पूर्व से उक्त आरक्षण का प्रावधान न हो।
- (iii) इन बिन्दुओं पर संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी निर्वाचन पदाधिकारी को दिनांक 18.03.2013 तक वस्तुस्थिति की सूचना अनिवार्य रूप से देंगे।

निर्वाचन पदाधिकारी प्रबंधकारिणी समिति के विभिन्न पदों के निर्वाचन के लिए संलग्न मानक प्रपत्र-1 (परिशिष्ट-2) में आवश्यक प्रविष्टियाँ अंकित कर सूचना दिनांक 20.03.2013 को निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

आदेश से,

एन० एस० माधवन,
मुख्य चुनाव पदाधिकारी

परिशिष्ट-1

क्षेत्रीय हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लिमिटेड के
प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्यक्रम

(i)	निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा प्रपत्र-1 में सूचना का प्रकाशन	20.03.2013 (बुधवार)
(ii)	नामांकन की तिथि एवं समय	04.04.2013 (बृहस्पतिवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(iii)	संवीक्षा की तिथि एवं समय	05.04.2013 (शुक्रवार) 11 बजे पूर्वाह्न से लगातार
(iv)	अभ्यर्थिता वापसी की तिथि	06.04.2013 (शनिवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(v)	मतदान, अगर आवश्यक हो	15.04.2013 (सोमवार) 7 बजे पूर्वाह्न से 2 बजे अपराह्न तक
(vi)	मतगणना	15.04.2013 (अपराह्न 3-4 बजे से)

परिशिष्ट-2

.....संघ,

प्रपत्र-1

सूचना का प्रपत्र

(प्रबंधकारिणी समिति के पदधारकों के निर्वाचन के लिए)

..... संघ, निबंधन संख्या, पता
.....के प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन दिनांकको किया जाना है।

मैं.....निर्वाचन पदाधिकारी एतद द्वारा निम्नलिखित आम सूचना देता हूँ :-
(निर्वाचन पदाधिकारी का नाम)

आम सूचना

(i) निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है -

पद	निर्वाचित किये जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या
1.	2.
उपविधि में यथा वर्णित पदों के आरक्षण सहित उल्लेख करें। जहाँ उपविधि में आरक्षण के प्रावधान नहीं हैं, उन मामलों में प्राधिकार की अधिसूचना में सन्निहित निदेशों के अनुसार उल्लेख करें।	

(ii) नामांकन पत्र अधोहस्ताक्षरी को उनके कार्यालय.....अथवा अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर सकने की स्थिति में.....को.....पर दाखिल किया जा सकता

(स्थान का नाम)

(उप निर्वाचन पदाधिकारी का नाम) (स्थान का नाम)

है। नामांकन पत्र दिनांक बजे पूर्वाह्न से बजे अपराह्न तक प्रस्तुत किया जा सकता है।

(नामांकन पत्र दाखिल की तिथि)

(iii) नामांकन पत्र का प्रपत्र उपरोक्त पदाधिकारियों के कार्यालय से दिनांक.....से दिनांक.....तक बजे से.....बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

(iv) नामांकन पत्रों की संवीक्षा दिनांक.....को.....पर ... बजे पूर्वाह्न से ... बजे

(स्थान का नाम)

अपराह्न तक की जायेगी।

(v) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दिनांक.....को बजे अपराह्न से ... बजे अपराह्न के पूर्व तकपर दाखिल की जा सकती है।

(स्थान का नाम)

(vi) सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांक.....को 7 बजे पूर्वाह्न से 2 बजे अपराह्न तक होगा।

(vii) मतदान केन्द्र (पूरा पता) में अवस्थित होगा।

(viii) मतगणना दिनांक.....कोबजे से.....पर की जायेगी।

(स्थान का नाम)

स्थान-

तिथि -

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 224-571+50-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>